

**हाईप्रोफाइल गैंग के दो सदस्य शातिर चोर, चोरी के सोने चाँदी के आभूषण कीमत करीब 09 लाख रुपये व आलानकब सहित गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री दिनेश कुमार पी के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर झाँसी श्री राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विगत दिनों थाना सीपरी बाजार व थाना कोतवाली व नवाबाद में हुई नकबजनी व चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये हाईप्रोफाइल गैंग के दो शातिर हाई प्रोफाइल चोरो को गिरफ्तार कर 03 अदद लैपटाप ,मोबाईल फोन व सोने चाँदी के जेवरात कीमती करीब 9 लाख रुपये आदि बरामद कर घटनाओं का सफल अनावरण किया गया ।

**✓ गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. शिवम कोष्टा उर्फ शिवम सूजी पुत्र राजकुमार कोष्टा नि0 नागो जी की पुलिया के आगे चाहत ब्यूटी पार्लर वाले के घर पर किराये से पंचवटी कालोनी उन्नावगेट बाहर थाना कोतवाली झाँसी
2. अभि0 प्रमेन्द्र साहू पुत्र रामभरोसे साहू निवासी सावित्री कुशवाहा पार्शद के घर के पास एकता कालोनी उन्नावगेट बाहर थाना कोतवाली झाँसी

**गिरफ्तारी का दिनांक ,समय एवं स्थान:**

दिनांक-01.10.2020 स्थान-पंचतन्त्र पार्क के पास थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी।

**✓ बरामदगी का विवरण:-**

सोने के टोप्स तीन जोड़ी, सोने की झुमकी, दो सोने की नथ, दो सोने की चूड़ी , 08 सोने की अगूठी, 02 सोने की चैन 7. 03 सोने का हार , 03 लैपटाप कुल, 02 सोने का मंगल सूत्र, 06 सोने की कील ,सोने की हाय, सोने का पेन्डल,सोने की बाली एक जोड़ी, 25चाँदी के सिक्के अदद,चाँदी की 03 कमर पेटी,चाँदी की विछिया एक जोड़ी,पायल 08 जोड़ी,आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक न0 50100262067459 ,02 आलानकब लोहे का ,मोबाईल फोन।

**✓ आपराधिक इतिहास-**

उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं।

**अनवारण करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 25 हजार रुपये पुरस्कार की घोषणा की गयी है।**